

This question paper contains 3 printed pages]

Roll No.

[illegible]

S. No. of Question Paper : 4107

Unique Paper Code : 6967000008

Name of the Paper : **Financial Literacy**

Name of the Course : Value Addition Course (VAC)

Semester : III

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note : — Answers may be written either in **English** or in **Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :- इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए; परन्तु सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any *three* questions. Question No. 1 is compulsory.

All questions carry equal marks.

किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Write short notes on any *two* of the following :
 - (a) Financial Literacy
 - (b) Government sponsored insurance schemes
 - (c) Risk Return Trade Off.

P.T.O.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) वित्तीय साक्षरता
- (b) सरकार प्रायोजित बीमा योजनाएँ
- (c) जोखिम वापसी ट्रेड ऑफ़।

2. X, Y and Z are in the category of super senior, senior and non-senior resident respectively in India for the assessment year 2023-24. The taxable income of X, Y and Z is ₹ 6,00,000; ₹ 15,00,000; and ₹ 25,00,000 respectively for the assessment year 2023-24. Compute the tax liability of each of them under the new tax regime for the assessment year 2024-25.

X, Y और Z भारत में कर-निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए क्रमशः सुपर सीनियर, सीनियर और गैर-वरिष्ठ निवासी की श्रेणी में हैं। कर-निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए X, Y और Z की कर-योग्य आय क्रमशः ₹ 6,00,000; ₹ 15,00,000 और ₹ 25,00,000 रुपये है। कर-निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत उनमें से प्रत्येक की करदेयता की गणना कीजिए।

3. Achievement of financial goals can be a very challenging process without proactive measures. Explain different strategies to minimise risk.

सक्रिय उपायों के बिना वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या कीजिए।

4. Calculate the return and risk of the security with the given information :

State	Probability	Return
Boom	0.30	30%
Stagnant	0.40	11%
Bear	0.30	-17%

नीचे दी गई जानकारी से सुरक्षा के रिटर्न और जोखिम की गणना कीजिए :

अवस्था	संभावना	रिटर्न
उछाल	0.30	30%
स्थिर	0.40	11%
मंदी	0.30	-17%

